



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1290]  
No. 1290]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2006/कार्तिक 5, 1928  
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2006/KARTIKA 5, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2006

सं. 5/2006

का.आ. 1847(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 5 जून, 2006 के आदेश सं. ए. 12026/16/2005-प्रसा. 1 द्वारा भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी तथा उस समय मुख्य आयकर आयुक्त, कानपुर के रूप में तैनात श्री बी.के. श्रीवास्तव को समपहत सम्पत्ति अपील अधिकरण में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से सदस्य के रूप में नियुक्त किया है;

और जबकि श्री बी. के. श्रीवास्तव ने दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से उक्त अधिकरण के सदस्य के कार्यालय का प्रभार सम्भाल लिया है।

अतएव अब समपहत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों) नियमावली, 1978 के नियम 11 के उप-नियम (2) के साथ पठित तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री बी.के. श्रीवास्तव की नियुक्ति को उपर्युक्त अधिकरण के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है।

श्री बी.के. श्रीवास्तव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।

[फा. सं. ए-15015/1/2006-सीए]

एस. जी. पी. वर्गीज, अवर सचिव (1)

3431 GI/2006

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2006

No. 5/2006

S.O. 1847(E).—Whereas the Central Government by Order No. A. 12026/16/2005-AD.I dated the 5th June, 2006, appointed Shri B.K. Srivastava, an officer of the Indian Revenue Service and then posted as a Chief Commissioner of Income Tax, Kanpur, as a Member of the Appellate Tribunal for Forfeited Property with effect from the date he takes over charge;

And whereas, Shri B.K. Srivastava, assumed charge of the office of Member of the said Tribunal in the forenoon of the 14th day of September, 2006;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), read with sub-rule (2) of Rule 11 of the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1978, the Central Government hereby notifies the appointment of Shri B.K. Srivastava, as Member of the aforesaid Tribunal.

Shri B.K. Srivastava shall hold office till he attains the age of sixty-two years or until further order, whichever is earlier.

[F No. A-15015/1/2006-CA]

S.G.P. VERGHESE, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2006

सं. 6/2006

का.आ. 1848(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 5 जून, 2006 के आदेश सं. ए.-12026/16/2005-प्रशा. 1 द्वारा भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी तथा उस समय मुख्य आयकर आयुक्त, कानपुर के रूप में तैनात श्री बी.के. श्रीवास्तव को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से समपहत सम्पत्ति अपील अधिकरण सदस्य के रूप में नियुक्त किया है;

और जबकि श्री बी.के. श्रीवास्तव ने दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से उक्त अधिकरण के सदस्य के कार्यालय का प्रभार सम्भाल लिया है।

अब अब समपहत सम्पत्ति अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें) नियमावली, 1989 के नियम 11, के उप-नियम (2) के साथ पठित स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 68 ढ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री बी.के. श्रीवास्तव की नियुक्ति को उपर्युक्त अधिकरण के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है।

श्री बी.के. श्रीवास्तव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।

[फा. सं. ए-15015/1/2006-सीए]

एस. जी. पी. वर्गीज, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2006

No. 6/2006

S.O. 1848(E).—Whereas the Central Government by Order No. A.-12026/16/2005-AD.I dated the 5th June, 2006, appointed Shri B.K. Srivastava, an officer of the Indian Revenue Service and then posted as a Chief Commissioner of Income Tax, Kanpur, as a Member of the Appellate Tribunal for Forfeited Property with effect from the date he takes over charge;

And whereas, Shri B.K. Srivastava, assumed charge of the office of Member of the said Tribunal in the forenoon of the 14th day of September, 2006;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 68N of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), read with sub-rule (2) of Rule 11 of the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1989, the Central Government hereby notifies the appointment of Shri B.K. Srivastava, as Member of the aforesaid Tribunal.

Shri B.K. Srivastava shall hold office till he attains the age of sixty-two years or until further order, whichever is earlier.

[F.No. A-15015/1/2006-CA]

S.G.P. VERGHESE, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2006

सं. 7/2006

का.आ. 1849(अ).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 68 ढ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 मई, 1989 की अधिसूचना सं.का.आ. 385(अ) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः :-

कथित अधिसूचना में “एन. सी. तिवारी” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर “बी.के. श्रीवास्तव” शब्दों और अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. ए-15015/1/2006-सीए]

एस. जी. पी. वर्गीज, अवर सचिव

टिप्पण :- दिनांक 29 मई, 1989 की मूल अधिसूचना सं.का.आ. 385(अ) को दिनांक 16 अगस्त, 1990 की सा.का.नि. नियमावली सं. 713(अ) दिनांक 22 जनवरी, 1991 के का.आ. 47(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 1991 की सा.का.नि. नियमावली, 723(अ), दिनांक 8 फरवरी, 1994 का का.आ. 191(अ), दिनांक 21 मई, 1999 के का.आ. 363(अ), दिनांक 15 फरवरी, 2001 के का.आ. 137(अ), दिनांक 25 फरवरी, 2003 की के का.आ. 229(अ), दिनांक 8 मई, 2003 का का.आ. 511(अ) और दिनांक 30 जून, 2005 के का.आ. 915(अ), द्वारा संशोधित किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2006

No. 7/2006

S.O. 1849(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 68N of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 385(E), dated the 29th May, 1989, namely :—

In the said notification, for the words and letters “Shri N.C. Tiwari”, the words and letters “Shri B.K. Srivastava” shall be substituted.

[F.No. A-15015/1/2006-CA]

S.G.P. VERGHESE, Under Secy.

Note :— The principal Notification No. S.O. 385(E), dated the 29th May, 1989 was amended by G.S.R. 713(E), dated the 16th August, 1990, S.O. 47(E), dated the 22nd January, 1991, G.S.R. 723(E), dated the 24th October, 1991, S.O. 191(E) dated 8th February, 1994, S.O. 363(E) dated 21st May, 1999, S.O. 137(E), dated 15th February, 2001, S.O. 229(E), dated 25th February, 2003, S.O. 511 (E), dated 8th May, 2003 and S.O. 915(E) dated 30th June, 2005.